

CLASS : 12th Sr. Sec.(Academic) Code No. 2916
Series : SS-M/2016

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

दर्शनशास्त्र

PHILOSOPHY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC

1st SEMESTER

(Only for Re-appear Candidates)

(Morning Session)

Time allowed : 2½ hours] [Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 40 हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper are 8 in number and it contains 40 questions.

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The **Code No.** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

2916

P. T. O.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/ pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

*Except answer-book, no extra sheet will be given.
Write to the point and do not strike the written answer.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

नोट : प्रश्न-पत्र के चार खण्ड हैं : अ, ब, स एवं द। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

*There are **four** Sections in this question paper : **A, B, C and D. All questions are compulsory.***

खण्ड – अ

SECTION – A
(निबन्धात्मक प्रश्न)

(Essay Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निबन्धात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।

Question Nos. 1 to 5 are essay type questions. Each question carries 4 marks.

1. भारतीय दर्शन के अनुसार ऋत क्या है ? समझाइए। 4
According to Indian philosophy, what is Rit ? Explain.

अथवा

OR

जैन दर्शन के अनेकान्तवाद के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
According to Jain Philosophy discuss the theory of Pluralism.

2. बौद्ध दर्शन के अनुसार 'चार आर्य सत्त्यों' की व्याख्या कीजिए। 4
According to Buddhism, explain 'four noble truths'.

अथवा

OR

वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य पदार्थ की व्याख्या करें।
According to Vaisheshika philosophy, explain the substance.

3. न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। 4
According to Nyaya philosophy, discuss the nature of perception.

अथवा

OR

सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के **तीन** गुणों का वर्णन करें।

Explain the **three** Gunas of Prakriti in Sankhya philosophy.

4. अरस्तू के कारणता सिद्धान्त की व्याख्या करें। 4
Discuss Aristotle's theory of Causation.

अथवा

OR

कांट के समीक्षावाद के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Explain, Kant's theory of Criticism.

5. अनुभववाद के स्वरूप की व्याख्या करें। 4
Explain the nature of Empiricism.

अथवा

OR

कारण के स्वरूप की व्याख्या करें।

Explain the nature of Cause.

खण्ड – ब

SECTION – B

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 6 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।

Question Nos. 6 to 12 are short answer type questions. Each question carries 3 marks.

6. भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के नाम बताइये। 3

State the names of Orthodox and Heterodox in Indian philosophy.

7. भारतीय दर्शन को सामान्यता आध्यात्मिक दर्शन क्यों कहा जाता है ? 3
Why is Indian philosophy generally considered spiritual philosophy ?
8. वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं ? 3
According to Vaisheshika philosophy, how many types of action (Karma) ?
9. योग दर्शन के अनुसार यम कितने प्रकार के हैं ? 3
According to Yoga philosophy, how many types of Yama ?
10. वस्तुगत कारण व आकारगत कारण में क्या अन्तर है ? 3
What is the difference between material cause and formal cause ?
11. अरस्तू के अनुसार कारण कितने प्रकार के हैं ? 3
According to Aristotle, how many types of Cause ?
12. ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धिवाद की परिभाषा दीजिए। 3
Define rationalism in the field of Knowledge.

खण्ड – स

SECTION – C

(अति लघूत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 13 से 23 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

Question Nos. 13 to 23 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.

13. बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का मूल स्रोत क्या है ? 2
According to Rationalism, what is the root source of Knowledge ?
14. अनुभववाद का जनक कौन है ? 2
Who is the founder of Empiricism ?

15. कारण तथा कार्य सापेक्ष पद हैं। क्यों ? 2
Cause and effect are relative terms. Why ?
16. ज्ञान एवं प्रमा में क्या अन्तर है ? 2
What is the difference between Knowledge and Prama ?
17. अनुभववाद की विशेषता बताइये। 2
State the characteristic of Empiricism.
18. योग साधना के मानसिक स्तरों के नाम बताइये। 2
State the name of mental stages of Yoga practice.
19. वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं ? 2
How many types of Dravya, according to Vaisheshika philosophy ?
20. जैन दर्शन के अनुसार पर्याय क्या है ? 2
According to Jain philosophy, what is Paryaya ?
21. न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण क्या है ? 2
According to Nyaya philosophy, what is Pramana ?
22. भारतीय दर्शन के अनुसार आस्तिक की परिभाषा दीजिए। 2
According to Indian philosophy, Define Orthodox.
23. वेदों के अनुसार ऋत क्या है ? 2
According to Vedas, what is Rit ?

खण्ड – द

SECTION – D

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 24 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

Question Nos. 24 to 40 are objective type questions. Each question carries 1 mark.

24. ज्ञान के समीक्षावाद सिद्धान्त के प्रवर्तक कौन हैं ? (लॉक/कांट) 1
Who is the founder of critical method of Knowledge ? (Locke/Kant)
25. बुद्धिवाद के समर्थक हैं। (डेकार्ट/कांट) 1
The supporter of Rationalism is (Descartes/Kant)
26. कारण कार्य की पूर्ववर्ती अवस्था है। (सत्य/असत्य) 1
Cause is antecedent to effect. (True/False)
27. अरस्तू के कारणता सिद्धान्त में कितने कारण हैं ? (3/4) 1
How many causes in Aristotle's causation theory ? (3/4)
28. सांख्य दर्शन के अनुसार 'सत्त्वगुण' ज्ञान का प्रतीक है। (सत्य/असत्य) 1
According to Sankhya philosophy, 'Satvagunas' is a symbol of Knowledge. (True/False)
29. वैशेषिक दर्शन के अनुसार समवाय एक अनिवार्य सम्बन्ध है। (सत्य/असत्य) 1
According to Vaisheshika philosophy Samavaya is a necessary relation. (True/False)
30. योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है 'मिलन'। (सत्य/असत्य) 1
According to Yoga philosophy, the meaning of Yoga is 'meeting'. (True/False)
31. योग के मार्ग को अष्टांग योग कहा जाता है। (सत्य/असत्य) 1
Ways of Yoga is called eightfold practice. (True/False)
32. न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। (गौतम/चार्वाक) 1
The founder of Nyaya philosophy is (Gautam/Charvaka)

33. जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा जाता है। (सत्य/असत्य) 1
The soul is called Jiva in Jainism. (True/False)
34. जैन दर्शन के अन्तिम तीर्थंकर हैं।
(महावीर/ऋषभदेव) 1
The last Tirthankar of Jainism is
(Mahavira/Rishabhadeva)
35. बौद्ध मत के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है।
(दुःख/सुख) 1
According to Buddhism, first noble truth
is (Suffering/Happiness)
36. बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। (बुद्ध/महावीर) 1
The founder of Buddhism is
(Buddha/Mahavira)
37. ईश्वर कर्म फल देता है। (सत्य/असत्य) 1
God gives the result of action.
(True/False)
38. ऋत एक नैतिक नियम है। (सत्य/असत्य) 1
Rit is a moral law. (True/False)
39. मोक्ष की अवस्था है। (मृत्यु/आनन्द) 1
Liberation is the stage of
(Death/Bliss)
40. भारतीय दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है। (सत्य/असत्य) 1
Indian philosophy is a practical philosophy.
(True/False)

CLASS : 12th Sr. Sec. (Academic) Code No. 3016

Series : SS-M/2016

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

दर्शनशास्त्र

PHILOSOPHY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC

2nd SEMESTER

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

Evening Session

Time allowed : 2½ hours] [Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 40 हैं।
Please make sure that the printed pages in this question paper are 8 in number and it contains 40 questions.
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।
The Code No. on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.

3016

P. T. O.

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

Don't leave blank page/ pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

Candidates must write their Roll Number on the question paper.

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

नोट : प्रश्न पत्र के चार खण्ड हैं : अ, ब, स एवं द। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

*There are **four** Sections in this question paper : **A, B, C and D. All questions are compulsory.***

खण्ड - अ

SECTION - A

(निबन्धात्मक प्रश्न)

(Essay Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निबन्धात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।

*Question No. 1 to 5 are essay type questions.
Each question carries 4 marks.*

1. लोक संग्रह से आप क्या समझते हैं ?
What do you understand by Lok Sangraha ?
2. अद्वैत वेदान्त के अनुसार जगत के स्वरूप की व्याख्या करें।
Explain the nature of World, according to Advaita Vedanta.
3. ईश्वर के अस्तित्व सम्बन्धी प्रयोजन मूलक युक्ति की व्याख्या करें।
Explain Teleological argument for the existence of God.
4. दण्ड के सुधारवादी सिद्धान्त की व्याख्या करें।
Explain the Reformatory theory of punishment.
5. साध्य और साधन सम्बन्ध की व्याख्या करें।
Explain the relationship between ends and means.

अथवा

OR

संकल्प की स्वतंत्रता की व्याख्या करें।

Explain the theory of free-will.

खण्ड - ब

SECTION - B

(लघूत्तरात्मक प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 6 से 12 तक लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है।

Question No. 6 to 12 are short answer type questions. Each question carries 3 marks.

6. गीता के अनुसार सकाम कर्म क्या है ?
According to Gita, what is Sakama Karma ?
7. द्वैतवाद क्या है ?
What is Dualism ?
8. मन व शरीर के सम्बन्ध की व्याख्या करें।
Explain mind & body relation.
9. आत्मा के कोशों का उल्लेख करें।
Enumerate Koshas of self.
10. सुखवाद के अनुसार नैतिकता क्या है ?
According to Hedonism, what is morality ?
11. दण्ड कितने प्रकार का है ?
How many types of punishment are there ?
12. प्रत्ययवाद को स्पष्ट करें।
Explain Idealism.

3016

खण्ड - स

SECTION - C

(अति लघूत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 13 से 23 तक अति लघूत्तरात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

Question No. 13 to 23 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.

13. गीता का उपदेश किसने किसको दिया ?
Who has Preached Gita to whom ?
14. योग का अर्थ स्पष्ट करें।
Explain the meaning of Yoga.
15. कर्म व निष्काम कर्म में क्या अन्तर है ?
What is difference between Karma and Nishkama Karma ?
16. आत्मा की कितनी अवस्थाएँ हैं ?
How many stages of self are there ?
17. पीनीयल ग्रन्थि किसे कहते हैं ?
What is the pineal gland ?
18. उचित क्या है ?
What is Right ?
19. अपराध एवं दण्ड में क्या सम्बन्ध है ?
What is relation between crime and punishment ?

20. आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है ?
Who is the supporter of subjective Idealism ?
21. दण्ड का प्रतिकारवादी सिद्धान्त कितने प्रकार का है ?
How many types of retributive theory of punishment are there ?
22. नैतिकता के लिए क्या आवश्यक है ?
What is necessary for morality ?
23. कर्तव्य क्या है ?
What is Duty ?

खण्ड - द

SECTION - D

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Type Questions)

नोट : प्रश्न संख्या 24 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

Question No. 24 to 40 are objective type questions. Each question carries 1 mark.

24. कर्म दो प्रकार का है - सकाम व निष्काम कर्म। (सत्य/असत्य)
There are two types of Karma (action) – Sakama and Nishkama Karma.
25. निष्काम कर्म पर बल देता है।
(इन्द्रिय नियंत्रण/इन्द्रिय समर्थन)
Nishkama Karma emphasizes on
(Sense Control/ Sense Support)

26. कर्मयोग में दो शब्द हैं - कर्म और योग। (सत्य/असत्य)
There are two words in Karmayoga-Karma and yoga. (True/False)
27. लोक संग्रह का साधन है। (सकाम कर्म/निष्काम कर्म)
The means of Lokasangraha is
(Sakama Karma/Nishkama Karma)
28. चेतना का स्वरूप है। (आत्मा/बुद्धि)
Consciousness is nature of
(Self/Mind)
29. अद्वैत वेदान्त के अनुसार आत्मा के कोष हैं। (4/5)
According to Advaita Vedanta there are Koshas of self. (4/5)
30. अद्वैत वेदान्त के संस्थापक शंकराचार्य हैं। (सत्य/असत्य)
Shankaracharya is the founder of Advaita Vedanta. (True/False)
31. स्वधर्म का सम्बन्ध वर्णाश्रम धर्म से है। (सत्य/असत्य)
Svadharm is related to Varnasharma Dharma. (True/False)
32. प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय परम सत्ता है। (सत्य/असत्य)
According to idealism, idea is ultimate reality. (True/False)
33. वस्तुवाद का आधार है। (इन्द्रिय प्रत्यक्ष/सामान्य ज्ञान)
The ground of realism is
(Sense perception/Common sense)

34. शरीर का गुण धर्म है। (विस्तार/विचार)
The attribute of mind is
(Expansion/Thought)
35. सामान्य दृष्टिकोण से मन व शरीर का सम्बन्ध वास्तविक है।
(सत्य/असत्य)
From common sense, the relation of mind &
body is real. (True/False)
36. सुधारवादी सिद्धान्त के अनुसार प्राणदण्ड न्याय संगत है।
(सत्य/असत्य)
According to Reformative theory, capital
punishment is justified. (True/False)
37. दण्ड का उद्देश्य अपराध को रोकना है। (सत्य/असत्य)
The aim of punishment is 'stop of crime'.
(True/False)
38. सर्वोच्च शुभ वह है जिसमें धर्म व सुख निहित हैं। (सत्य/असत्य)
The highest good is that in which duty and
happiness are inherent. (True/False)
39. गीता के अनुसार आत्मा नश्वर है। (सत्य/असत्य)
According to Gita, Soul is mortal. (True/False)
40. स्पिनोज़ा समानान्तरवाद के सिद्धान्त को स्वीकारता है। (सत्य/असत्य)
Spinoza accepts theory of parallelism.
(True/False)

